



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023 (फाल्गुन 8, शक संवत् 1944)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई. पूर्वाह्न 11.12 बजे श्री मंगुभाई पटेल, राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - "राज्यपाल महोदय द्वारा अपने अभिभाषण के अधिकांश पैराग्राफ सदन में पढ़े गये हैं. शेष समस्त पैराग्राफ पढ़े हुए माने जायेंगे तथा अभिभाषण पटल पर रखा गया माना जाएगा".

पूर्वाह्न 11.36 बजे, राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-
'राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं'

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 एवं गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2023 का समय नियत किया गया. तदनुसार माननीय सदस्यों द्वारा कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन आज सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023 को अपरान्ह 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दिए जा सकते हैं".

4. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों का सामूहिक छायाचित्र लिया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - "अभी विधान सभा भवन के द्वार क्रमांक 4 के सामने माननीय सदस्यों का सामूहिक छायाचित्र लिया जाएगा. अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि छायाचित्र हेतु उक्त स्थल पर पहुँचने का कष्ट करें".

पूर्वाह्न 11.42 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी, 2023 (9 फाल्गुन, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.